

DALY COLLEGE, INDORE
ANNUAL EXAM CLASS VII CI SYLLABUS
MARCH 2023

1. ENGLISH:

Paper1 :Fiction
Comprehension Passage
Report writing
Diary entry
Article writing
Subject -verb agreement
Direct-Indirect speech
Active-passive voice
Vocabulary - Idioms and Phrases
A Christmas Carol

Paper-2 :Non-fiction
Comprehension Passage
Character biases(negative and positive)
Story writing
Prepositions
Conjunctions
Relative & Reflexive Pronouns
Advertisements
Vocabulary- Phrasal Verb
A Christmas Carol

2.HINDI

वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम

वसंत - संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया
:धनराज पिल्लै, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ,
पापा खो गए, चिड़िया की बच्ची, शाम: एक किसान,
भोर और बरखा, एक तिनका, रहीम के दोहे।

उन्मेष - शब्द कहां से आते हैं?, मानव सेवा ही ईश्वर
सेवा है, परीक्षा, प्लास्टिक युग।

व्याकरण - अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, अशुद्धि
शोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द (16से 30 तक),
उपसर्ग (1से25), अनेकार्थी शब्द ,(1से15), अपठित
गद्यांश, समास अव्ययीभाव, तत्पुरुष ,द्वन्द्व, ईमेल लेखन।

3. FRENCH

1. Le Compréhension écrite
2. La grammaire : Le temps : L'imparfait, l'impératif et les expressions négatives.
3. L'expression écrite
4. Unit- 5,6,7 & 8
5. Les vocabulaires

4. SPANISH

Verbos Regulares -ar, -er, -ir,
Few irregular verbs,
Pronombres Reflexivos, Verbos Reflexivos ,
Adjetivos,
Present Progressive -ando/-iendo,
Spanish Culture, National Anthem, Royal
Family of Spain, Spanish festivals,
Sentence construction,
Los Numeros,
Tiempo,
Reading Comprehension,
Vocabulario – Las verduras, Las flores,
Las Ropas and Las habitaciones (al other
vocabulary done in class)
Description of a place or person
Speaking

5. संस्कृत

रुचिरा द्वितीयो भागः
पाठः - पण्डिता रमाबाई
विश्वबंधुत्वम्
समवायो हि दुर्जयः
विद्याधनम्
अनारिकायाः जिज्ञासा
लालनगीतम्

शब्दरूपाणि - मधु , मति ,पितृ

धातुरूपाणि - विधिलिङ् लकार
लङ् लकार
लोट् लकार

6. MATHEMATICS

1. Integers, Powers and roots.
2. Expressions.
3. Shapes and mathematical drawings.
4. Sampling.
5. Area, perimeter and volume.
6. Fractions and decimals.
7. Equations, formulae and inequalities.
8. Geometry.
9. Decimals, percentages and fractions.
10. Presenting data and interpreting results.
11. Sequences.
12. Ratio and proportion.
13. Transformations.
14. Functions and graphs.
15. Probability.

7. PHYSICS

Chapter 1 Forces (1.1 to 1.11)
Chapter 4 Forces (4.1 to 4.7)
Chapter 5 Sound (5.1 to 5.8)
Chapter 7 magnetism (7.1 to 7.6)
Chapter 8 forces (8.1 to 8.15)

8. CHEMISTRY

Unit 1: States of Matter
Unit 5: States of Matter
Unit 2: Material Properties
Unit 6: Material Properties
Unit 3: Material Changes
Unit 7: Material Changes
Unit 4: The Earth

9. BIOLOGY

Chapter 8: Digestion
Chapter 9: Circulation
Chapter 10: Respiration
Chapter 11: Reproduction and fetal development
Chapter 12: Drugs and diseases

10. HISTORY & CIVICS

History :

Ch 1 Tracing Changes
Through A Thousand Years
Ch 2 New Kings and Kingdoms
Ch 3 The Delhi Sultans
Ch 4 The Mughal Empire
Ch 5 Rulers and Buildings
Ch 8 Devotional Paths to the Divine
Ch 10 Eighteenth Century Political Formation

Civics:

Ch 1 On Equality
Ch 2 Role of Government in Health
Ch 3 How the State Government Works
Ch 4 Growing Up As Boys and Girls.

11 GEOGRAPHY:-

Ch-3 Our Changing Earth
Ch-4 Air
Ch-5 Water
Ch-6 Natural Vegetation and Wildlife
Ch-8 Human Environment Interactions The
Tropical and the Subtropical Regions
Ch-9 Life in the Desert
Case Study
1. Earthquake
2. Cyclone
3. Tsunami
4. Amazon Forest
5. Rice cultivation in Ganga-Brahmaputra Basin
6. Hot / Cold Desert
Map work:
1. Major seas, lakes, rivers
2. Ocean currents
3. Major sea ports and airports
4. Case studies
5. Grasslands

12. COMPUTER SCIENCE

Project 14 - Check Voting Eligibility using IF
Project 15 - Even/Odd number calculator
Project 16 - Positive/ Negative number
Calculator
Project 17 - Check whether a triangle can be
formed by the given value for the angles.
Project 18 - Swapping of two numbers (Using
3rd variable)
Project 19 - Swapping of two numbers (without
Using 3rd variable)
Project 20 - Accept day number and display its
equivalent day name in the word
Project 21 - Accept digit and display in the
word
Project 22: Check whether an alphabet is a
vowel or consonant
Project 23 - Calculate profit and loss
Project 24- Check whether a triangle is
Equilateral, Isosceles or Scalene

Full theory booklet given in the class